



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259781
CG-DL-E-01012025-259781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1061]
No. 1061]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

फा.सं. 18-36/14976-आईएनसी:-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, नियो मेडिक्स नर्सिंग स्कूल, ग्राम तेतुलिया, पोस्ट सेक्टर 12, बोकारो, जिला बोकारो-827001 (झारखंड) झारखंड राज्य सरकार तथा झारखंड नर्सिंग पंजीकरण परिषद् द्वारा एएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड राज्य सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची-834002, झारखंड को संबोधित नोटिस संख्या 18-36/14976-आईएनसी (53927) दिनांक 26.02.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 26.02.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति नियो मेडिक्स नर्सिंग स्कूल, ग्राम तेतुलिया, पोस्ट सेक्टर 12, बोकारो, जिला बोकारो-827001, झारखंड को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, नियो मेडिक्स नर्सिंग स्कूल के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी नियो मेडिक्स नर्सिंग स्कूल ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् द्वारा इस मामले पर समग्र विचार किया गया है। दिनांक 19.09.2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये गंभीर कमियां हैं जिसका मतलब है कि संस्थान एएनएम पाठ्यक्रम का संचालन करने में असमर्थ है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21.05.2024 से नियो मेडिक्स नर्सिंग स्कूल, ग्राम तेतुलिया, पोस्ट सेक्टर 12, बोकारो, जिला बोकारो-827001, झारखंड से एएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल झारखंड राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./823/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

F.No. 18-36/14976-INC: —In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Neo Medics Nursing School** situated at **Vill – Tetulia, Post – Sec.12, Bokaro, Distt. Bokaro 827001 Jharkhand** is recognized by State Government of Jharkhand and Jharkhand Nurses Registration Council to conduct **ANM** Course.

Whereas, a notice no. 18-36/14976-INC (53927) dated **26/02/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Chief Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Jharkhand, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002, Jharkhand was issued. Copy of the notice dated 26/02/2024 was also enclosed to **Neo Medics Nursing School** situated at **Vill – Tetulia, Post – Sec.12, Bokaro, Distt. Bokaro 827001 Jharkhand** In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Neo Medics Nursing School** Even the institution **Neo Medics Nursing School** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 19/09/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run **ANM** Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of **ANM** from **Neo Medics Nursing School** situated at **Vill – Tetulia, Post – Sec.12, Bokaro, Distt. Bokaro 827001 Jharkhand** shall be entitled to be registered only in the State of Jharkhand.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./823/2024-25]